REGENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office:-E-205 (LGF), Greater Kailash II, New Delhi-110048, India Telephone no. 011-29213191, Email: info@regententerprises.in
Fax No. 011-24338696; Website: www.regententerprises.in
CIN-L15500DL1994PLC153183

Date: September 04, 2020

To,
The Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Phiroze Jeejebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001
Script code: 512624

SUB: Newspaper Advertisement-Notice of 26th Annual General Meeting ("AGM") and E-Voting Information.

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published by the company in "The Pioneer" New Delhi (English edition) at Page Number 09 and Pioneer" New Delhi (Hindi Edition) at Page Number 10 regarding notice of 26th AGM and E-Voting information of the Company Scheduled to be held on **Monday**, 28th September, 2020 at 10:00 AM (IST).

A copy of the Newspaper advertisement is enclosed herewith.

You are requested to please take note of the same on your record

Thanking You,

For Regent Enterprises Limited For Regent Enterprises Ltd.

Vikas Kumar

Whole Time Director

DIN: 05308192

-COVID-RELATED STRESS-----

FM asks banks to roll out resolution schemes

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday directed banks to roll out resolution schemes for Covidrelated stress by September 15.

During her interaction with the heads of scheduled commercial banks and NBFCs through a video conference, Sitharaman focused on lenders immediately putting in place board-approved policy for resolution, identifying eligible borrowers and reaching out to them, said an official statement.

She also called for quick implementation of a sustained resolution plan by lenders for revival of every viable business.

Sitharaman told the lenders that as and when moratorium on loan repayments is lifted, borrowers must be given support and Covid-19 related dis-

lenders' assessment of their credit-worthiness.

Further, she also called for a sustained media campaign to create awareness among the borrowers for the resolution scheme. She advised lenders to ensure that regularly updated FAQs on the resolution framework are uploaded on their websites in Hindi, English and regional languages, and also circulated to their offices and branches.

The lenders assured that they are ready with their resolution policies, and have started the process of identifying and reaching out to eligible borrowers, and that they will comply with the timelines stipulated by the Reserve Bank of India (RBI)," said the Finance Ministry statement. The ministry said that it has also been engaging with the RBI to

assisted by the central bank in the resolution process.

As the pandemic has led to severe economic stress across sectors, the RBI in August announced to provide a resolution framework to enable the lenders to implement a resolution plan, in respect of eligible corporate borrowers without change in ownership while continuing the account status as standard, subject to specified

During the virtual meet on Thursday, the Finance Minister also reviewed the progress made by various lenders under ECLGS, PCGS 2.0 and subordinate debt schemes announced as part of the 'Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan, and advised lenders to try and extend the maximum possible relief to borrowers before the festive season.

Diesel price cut for first time in close | SENSEX, NIFTY END LOWER to 6 months; petrol unchanged

PTI ■ NEW DELHI

 $D_{\text{was cut for the first time in}}^{\text{iesel price on Thursday}}$ close to six months after stateowned fuel retailers reduced retail selling rate by 16 paise per litre. Diesel now costs ₹73.40 per litre in the national Capital, as against ₹73.56 a litre previously, according to a price notification of state-owned fuel retailers.

Petrol, which witnessed the second rally in rates beginning mid-August, was unchanged at ₹82.08 a litre.

This is the first reduction in diesel price since mid-March when Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) and Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) froze rates for 82 days to adjust a record hike in excise duty on auto fuels against falling benchmark cost.

Diesel rates had gone up by ₹12.55 a litre between June 7, when oil firms resumed revising prices in line with cost, and July 25. Diesel price has

remained unchanged in the country since July 25, except in Delhi where a reduction in VAT lowered the rate by ₹8.38 per litre.

Petrol price went up by ₹9.17 per litre between June 7 and June 29 before hitting The revision cycle again

started on August 16 and rates have gone up by ₹1.51 since then. In all, the petrol price has risen by ₹10.68 since June 7. In Mumbai, petrol comes

₹80.11 previously, according to the price notification. In Kolkata, petrol is priced ₹83.57, while diesel now costs ₹76.90 a litre, down from

for ₹88.73 per litre while diesel is priced at ₹79.94, as against

₹77.06 previously. In Chennai, petrol comes for ₹85.04 a litre and diesel for ₹78.71, as against ₹78.86 previously.

State-owned fuel retailers revise rates of petrol and diesel daily based on average price of benchmark fuel in the preced-

BANKING STOCKS PLAY SPOILSPORT

 $B_{
m closed}^{
m enchmark}$ equity indices trade on Thursday, dragged by losses mainly in banking counters as overall weak macroeconomic scenario weighed on investor sentiment.

The BSE Sensex ended 95.09 points or 0.24 per cent lower at 38,990.94; and the NSE Nifty closed 7.55 points or 0.07 per cent down at 11,527.45.

On the Sensex chart, ICICI Bank was the top loser, shedding around 2 per cent, followed by Bharti Airtel, Axis Bank, Kotak Bank and PowerGrid.

On the other hand, Titan, Tech Mahindra, Nestle, Maruti, Sun Pharma and Asian Paints were among the gainers.

Sectorally, BSE bankex, finance, metal, energy, realty and utilities indices fell up to 1.51 per cent.

While consumer durables, IT, teck, capital goods, industrials and auto indices rose up to 3.37 per cent.

Broader midcap and smallcap indices outperformed the BSE benchmark, ending up to 0.74 per cent higher.

"Markets exhibited volatility and ended flat for the day, switching between gains and losses. However, global markets, especially Europe, were generally positive for the day, anticipating better economic data," Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services, said.

Domestically, emerged that the services sector had contracted for the 6th consecutive month, in spite of phased reopening of the economy in the last two months, he said, adding that this has led to worries that the comeback, foreseen for the economy, could be long drawn out.

The market turned nega tive after the latest IHS Markit Services Purchasing Managers' Index (PMI) conmonth in August.

The seasonally adjusted India Services Business Activity Index rose sharply from 34.2 in July to 41.8 in August, the highest since March, before the escalation of the pandemic.

The downturn in India's services sector activity eased in August but remained in the contraction zone as Covid-19 pandemic-induced restrictions continued to adversely impact client demand and business

Bourses in Shanghai and Hong Kong ended in the red, while Tokyo and Seoul closed

Stock exchanges on in Europe were trading on a positive note in early deals.

Global oil benchmark Brent crude was trading 1.40 per cent lower at USD 43.81 per

In the forex market, the rupee depreciated 44 paise and closed at 73.47 against the

NHAI debars developer of Rajiv Chowk-Sohna project from bidding

PNS NEW DELHI

The NHAI has debarred the ■ concessionaire of the under construction elevated corridor on 6-laning of NH-248-A from Rajiv chowk to Sohna from participating in any NHAI bids (directly or in association/ JV) involving major structural works after its explanation for the collapse of a span of the stretch was found unsatisfactory.

Following the collapse last month, the concessionaire, M/s Rajiv Chowk-Sohna Highway Pvt. Ltd. and its promoters i.e. M/s Oriental Structural Engineers Pvt. Ltd, was issued a show cause notice to explain the violation of the obligations under the Concession Agreement.

The explanation furnished by the concessionaire was found to be unsatisfactory, NHAI officials said, adding moreover, lapses were also found in implementation of the safety measures/workmanship/adherence to construction methodologies/ procedures, which were highlighted time and again to the contractor before the incident.

Following the collapse last month, the concessionaire, M/s Rajiv **Chowk-Sohna Highway** Pvt. Ltd. and its promoters

i.e. M/s Oriental Structural Engineers Pvt. Ltd, was issued a show cause notice to explain the violation of the obligations under the **Concession Agreement**

Therefore, it was established that the concessionaire failed to discharge its obligation to construct a safe structure and to ensure safety of the user and pedestrians on the previous occasions and during the accident as well, the officials maintained.

Accordingly, with immediate effect, the concessionaire has been debarred from par-ticipating in any NHAI bids (directly or in association/ JV) involving major structural works until they demonstrate reliable construction methodologies/ designs and adequate safety measures at sight; and demonstrate that such type of accident does not occur in other part of their works.

Paper industry welcomes review | 'Auto component players to see revenue, margins go down in FY21' of ASEAN-India free trade pact

New Delhi: Strongly welcoming the review of ASEAN-India FTA agreed upon by ASEAN countries on India's request, Indian Paper Manufacturers Association (IPMA) has requested the Union Ministry of Commerce & Industry to put paper & paperboard in the negative list so as to provide a level-playing field for Indian paper manufacturers who have been bearing the brunt of indiscriminate import of cheap paper, especially writing, print-

ing paper, from ASEAN countries. "Domestic paper mills have been severely impacted due to imports flooding into the country from ASEAN countries at nil basic customs duty. Several smaller paper mills, and even a few large ones, have been forced to shutdown their operations due to commercial unviability. There is adequate production capacity in the country which is currently under-utilised," said IPMA president AS Mehta.

DA due to sharp contraction in demand over what the industry experienced during FY20, said Brickwork Ratings in a report released on Thursday. According to Brickwork Ratings, during FY20, the rev-

enues of auto ancillaries declined about 8-10 per cent after a year-on-year (yoy) increase until FY19. The reduction in revenue is owing to the shrinking order book from Original Equipment Manufacturers (OEMs) due to lower automobile sales in the country last fiscal, it said.

Chennai: Auto component manufacturers are expected to

suffer about 15-18 per cent decline in their revenues in

FY21 and an average of 100 basis points (bps) in their EBIT-

According to the rating agency, the auto component makers' revenue is expected to slip by about 15-18 per cent in FY21 on account of lower income levels and continued

weak sentiments.

"BWR (Brickwork Ratings) expects export revenues to decline as well in FY21 as more than 50 per cent of our exports are to markets in Europe, the UK and the US, and demand from these markets is expected to decline amid the Covid-19 outbreak and postponement of model launches or deferment/cancellation of orders," the report said.

According to the report, auto components players will be affected adversely in the first quarter of the current fiscal and, to some extent, during the second quarter as well. The rating agency expects a gradual recovery in vehi-

cle sales from the second half of the current fiscal owing to pent-up demand, an improvement in OEMs production activities and the easy availability of credit from

Team NTPC beats 112 organisations to emerge winner at AIMA-Chanakya National Management Games 2020



New Delhi: Team NTPC overcame a stiff challenge to emerge as winner at the recently concluded All India Management Association (AIMA) Game) National Management Games (NMG) 2020. The vic-

tory was also significant since NTPC won the prestigious National Management Games for the first time in five years. The team from NTPC Vallur, Tamil Nadu achieved the feat of being crowned the national

WESTERN RAILWAY

E-Tender as per details given as

follows: Tender Notice No:

M137/20 (Pest - 2020) Dated:

02.09.2020 Name of the work: Pest

& Rodent Control Treatment to

Coaches of All Primary Maintained

Trains and Rodent Control

Treatment in Pit-lines & Yards of

Mumbai Central Division. Approx.

Cost of Work (₹): ₹3,71,92,881.33

(All Inclusive) Tender Document

Cost: ₹10,000/- EMD (₹)

₹3.36.000/- Completion Period

36 Months Tender Submission

Closing Date & Time: 29.09.2020

at 15:00 Hrs. Please visit our

website http://www.ireps.gov.in to

download the tender document,

corrigendum and further details

Manual offer will not be considered.

Like us on : f facebook.com/WesternRly 3

PEST CONTROL WORK

DME (Co.) BCT invites

champion after competing against teams from 112 organisations from different parts of the country.

The team comprised Shri ambi G, Mani C&I Maintenance; Shri Senkguttuvan P J, Manager, Operations (Main Plant); Shri Yoginderkumar J, Manager, Operation from NTPC Vallur. Team NTPC Vallur qualified for the regional rounds, which was held online and subsequently qualified for the Finals.

Gr Noida authority planning another system so people can avail facilities



Greater Noida: Greater Noida City is developing very fast as a modern city. Over here all types of modern facilities, ties, broad-gauge roads, all and circumstances. So that the modern facilities like multiplex, golf, greenery, parks and recreation facilities. Due to coronavirus epidemic, swimming pool gym clubs etc. are closed in the State. Also, people are not able to take advantage of these facilities due to the said

epidemic and social distancing.

The Greater Noida Authority is considering to prepare an alternative system keepcommon people/residents here start their morning in a healthy and natural environment of the above activities by going out of the buildings / houses to start their morning in a better way, such as morning walk, yoga, exercise and recreation etc.

Jharkhand's Deoghar Airport to get ready soon

of India, in collaboration with the Defense Research and Development Organisation (DRDO) and State Government is developing the Deoghar Airport in Jharkhand. The development of airport with project cost of ₹401.34 Croreis underway and will be completed very soon

The airport will spread across 653.75 acres of land and its Terminal Building is being built in an area of 4000sq meter. With a 2,500-meter. long runway, the airport will be suitable for operation of Air Bus 320 type of aircraft. The terminal building will have six checkwith peak hour handling capacity of 200 passengers.

With environment-friendly architectural design and state-ofthe-art passenger facilities, the terminal building will be a composite structure inspired by the

Shikharsof the Baidyanath Temple. The interiors will depict

Deoghar Airport, the sec-Ranchi, a six-hour drive away, is situated on the North Eastern side of the state and will have a

ern West Bengal

SEARCH FOR MISSING



General Public is hereby informed that one person namely Mukesh S/o Om Parkash R/o H.No. 109, Gali No.3, Ibrahimpur Swaroop Nagar Road, Delhi has been missing since 16.08.2020 from his house the area of P.S. Swaroop Nagar, Delhi. In this regard a case vides DD No. 80A dated 18.08.2020 has been registered at PS. Swaroop Nagar, Delhi. The description of missing person is as

Name: Mukesh, Father's Name: Om Parkash, Age: 40 years, Height: 5'3", Face: Long, Built: Thin, Complexion Wheatish, Wearing: Sky Colour shirt and black colour pant. Hair: Black and White Colour small.

If anyone having any clue/information, kindly inform the undersigned.

Website: http://cbi.nic.in e-mail: cic@cbi.gov.in Fax: 011-24368639

P.S., Swaroop Nagar, Delhi Ph.: 011-27811415 Ph.: 011-24368638, 24368641 27811738 DP/443/ON/2020

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS NOTICE

PENSION ADALAT PENSION ADALAT PENSION ADALAT Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan will hold its 35th Pension Adalat on 15.12.2020 (Tuesday) at Chittaranjan.

In the Pension Adalat the grievances of pensioners family pensioners of Chittaranjan Locomotive Works in regard to non-receipt of Pension/Family Pension/ Provident Fund/DCRG/ Commuted value of pension/ Encashment of Leave Salary/Railway or Group Insurance will be settled on the spot.

Pensioners/Family Pensioners of Chittaranjan Locomotive Works with any grievance as mentioned above may submit their representation in duplicate along with complete particulars such as Name/Details of last post held/Date of retirement/Death, Type of grievance, full present address and P.P.O No. in a closed envelop address super scribing on the top "FOR PENSION ADALAT-2020" by 31.10.2020 addressed to:- THE PRINCIPAL CHIEF PERSONNEL OFFICER, CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS, P.O. CHITTRANJAN, DISTRICT: PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL, PIN CODE-713331. Principal Chief Personnel Officer/ **RDS-091** CLW/Chittaranjan

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013

"Form No. INC-26

and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation

egistered office at B-576 Nehru Ground NIT Faridabad Haryana 121001 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Board meeting held on 23rd day of July, 2020, Thursday at 11.00 A.M. to enable he company to change its Registered Office from "State of Haryana" to "State Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change o

the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by ar affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor ryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below: For and on behalf of the Applican

Date: 04.09.2020

Ruchika Kapoo

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, Shal Tower, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the belowmentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

No.	r. Name of the Description Discription Discription Of Property/ Date of Account Number Symbolic Possession		Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch	
Pr	rashant Yadav/	Second Floor, Sector 49, At Ownership No- 12, T P Scheme No-3 (Part-I), Plot No- 4822, Indraprastha Extension, Faridabad/ August 27, 2020		Delhi/ Ncr	

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: 04-09-2020

Authorized Officer

APPEAL FOR IDENTIFICATION



General public is hereby informed that an unidentified deadbody of male Age: 25-30 years, Height: 5'6", Complexion: Fair, Identification: A tattoo of 'Three Stars' on right arm, wearing white & brown colour shirt and light blue colour Jeans, was found dead on 24.08.2020 under Peeragarhi

Flyover, near police booth, Delhi. In this regard DD No. 102-A dated 24.08.2020 has been lodged at PS Paschim Vihar East, Delhi.

Any person having any information or clue about the deceased may kindly inform to the undersigned on the following address or telephone numbers.

DP/374/OD/20

SHO - P.S. Paschim Vihar East, Delhi. Tel. No. 011-25263471, 25267286

New Delhi: Airports Authority

local tribal arts, handicrafts, and pictures of local tourist destinations highlighting the culture of the region. ond airport in Jharkhand after

wide catchment area including South-Eastern Development of this airportwill give an impetus to local tourism and will generate employment as large part of the local population depends on tourism for its livelihood.

REGENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: E-205 (LGF), Greater Kailash-II, New Delhi-110048 Tel: 011-29213191 E-mail: info@regententerprises.in CIN: L15500DL1994PLC153183;Website:www.regententerprises.in

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Regen

Enterprises Limited ("the Company") will be held on Monday, 28th September, 2020 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated September 01st September, 2020 in Compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (" Act"), the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020. General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 nd General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI isting Regulations") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of the Members at a Common venue.

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-2020 have been sent to all the Members on Thursday, 03th September, 2020 whose E-Mail IDs are registered with the Company/Depositry Paticipant(s). The requirement of sending physical copy of Notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circulars, Pursuant to Section 91 of the Comaonies Act, 2013 and Clause 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22

2020 to September 30, 2020 (both days inclusive), for the purpose of the AGM. Pursuant to provisions of Section 108 read with Rule 20 of the Companies (Management and Adminsistration) Rules, 2014 (as amended) and Regulations 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirments) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the e-voting facility to its Members through National Securities Depository Limited (NSDL) to exercise their right to vote electronically on the Resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic

means ('remote e-voting').

In this regard Members are hereby informed that a) The remote e-voting shall commence on Friday 25th September, 2020 and will end on Sunday 27th September 2020. The remote evoting shall not be allowed after 27th September, 2020 and the same will be disabled by NSDL.

b) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of the Beneficery owners maintained by depostories as on the cut-off date i.e. Monday 21st September 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The detailed procedure/Instructions for remote e-voting or voting at the AGM, are contained in the Notice of

c) any person who acquires shares of the company and becomes the member of the company after dispatch of Notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. Monday 21st September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user id and password can be used for casting vote.

d) E-voting facility will be available for those Members who attend the AGM on that day will be provided by the NSDL. e) Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM

through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. f) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to cast their vote again g) The Notice of the AGM and Annual Reports for the Financial Year 2019-2020 is available on

the Company's website at www.regententerprises.in and also on the websit of NSDL at https://

h) In case of any enquiries/grievances pertaining to the Voting by electronic means, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download Section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No. 800-222-990 or send request at evoting@nsdl.co.in

For Regent Enterprises Limited

Vikas Kumar Whole Time Director (DIN:05308192)

नोवाक जोकोविच ने इस साल पहली बार टाईब्रेकर गंवाने के बाद शानदार वापसी करके चार सेट में जीत दर्ज करके युएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया लेकिन महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त कारोलिना पिलिसकोवा दसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाई।

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच ने काइल एडमंड को 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। पहला सेट एक घंटे से अधिक समय तक चला जिसे एडमंड ने टाईब्रेकर में अपने नाम किया। इससे पहले इस साल जोकोविच ने सभी दस अवसरों



रेजेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ई-205 (एलजीएफ), ग्रेटर कैलाश-।।, नई दिल्ली-110048 दूरमाष सं. 011-29213191, ई-मेल : info@regententerprises.in

26वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा दूस्थ ई-मतदान

जानकारी की सूचना

वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन बीडियो काफ्रोसँग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुल्ज मीस ("जोएबीएम") के माध्यम से सोमवार 28 सितंबर 2020 को 10 बजे (भागास) एजीएम की सूचना दिनाचेता 1 सितंबर 2020 में निर्धारिवानुसार व्यवसाय का कार्य-निष्धादन करने हेतु किसी आम श्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों ("अधिनियम"), कार्योरेट कार्य मंत्रालय ("एगसीए") द्वारा निर्मत सामान्य परिषत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 11/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 तथा सामान्य परिपत्र संट्या 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 स्थे सी (सूधीकरण दिनयमावली एवं विनयमावली") और भारतीय प्रतिपृति एवं विनियम बौडी द्वारा निर्मत परिपत्र सं. संबी/एवओ/सीएफडी/अधिन्यत्रिकार संवर्धकार प्रतिवर्धकार भी स्वर्धकार के स्वर्धकार कर स्वर्धकार के स्वर्धकार के स्वर्धकार के स्वर्धकार के स्वर्धकार के स्वर्धकार के स्वर्धका

एजीएम की सूचना तथा विस्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन उन समस्त सदस्यों को मुक्तार रितंबर 2020 को प्रेषित कर दिए गए हैं, जिनकी ईं-मेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी प्रतिमागी(प्रतिमागियाँ) । पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की वास्तविक प्रति मेजने की गवस्थकता को एमसीए परिपत्र(परिपत्रों) तथा सेबी परिपत्रों के द्वारा अनावस्थक बना दिया गया है। कम्पनी

धिनियम 2013 की घारा 91 तथा सेबी (सूबीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली 2015 हे उपवाक्य 42 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां 22 सितंबर 2020 से किर 30 सितंबर 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्यार्थ बंद रहेंगी।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 (संशोधितानुसार) के नियम 20 के साथ पठित घारा 108 और भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड (बुधीकरण दायित्व एवं फक्टीकरण आवश्यकताए) विनियमावली 2015 के विनियम 44 और भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्मत सामान्य बैठक के साविविक मानक अनुसार, कम्पनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को

क्त एजीएम में निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान के अपने विकार के प्रयोगार्थ ई–मतदान सुविघा उपलब्ध करा रही है तथा व्यवसाय का कार्य–निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक व्यवमाँ ("दुरस्थ ई–मतदान") द्वारा मतदान करने के माध्यम से किया जा सकता है।

(क) दूरस्थ ई—मतदान का प्रारंभ शुक्रवार 25 सितंबर 2020 को होगा तथा समापन रविवार 27 सितंबर 2020 को होगा। दूरस्थ मतदान की अनुमति 27 सितंबर 2020 के उपरान्त प्रदान नहीं की जाएगी तथा इसे एनएसडीएल द्वारा अयोग्य कर दिया जाएगा।

एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार 21 सितंबर 2020 के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अमिलेखित हैं. केवल

वह ही एजीएम में मतदान करने अथवा दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एजीएम में मतदान करने अथवा दूरस्थ ई-मतदान हेतु विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश एजीएम की सूचना में

सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 (''सेबी परिपपत्र'') के अनुपालन में किया जाएगा।

स संबंध में सदस्यगणों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि रेजेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड ("दि कम्पनी") के सदस्यों की 26वीं र्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मींस

एल15500डीएल1994पीएलसी153183, वेबसाइट : www.regententerprises.in



दबदबा बना दिया और इस साल के खिताब भी जीता था। महिला वर्ग में अपने रिकार्ड को 25-0 पर पहुंचाया। शीर्ष वरीयता प्राप्त पिलिसकोवा का पर टाईब्रेकर में जीत दर्ज की थी। इस बीच उन्होंने आस्ट्रेलियाई ओपन सफर दूसरे दौर में थम गया। उनके

इसके बाद हालांकि जोकोविच ने के रूप में अपना 17वां ग्रैंडस्लैम

लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा पाई। फ्रांस की कारोलिन गर्सिया ने उन्हें 6-।, 7-6 (2) से पराजित किया। इस बीच 2018 की चैंपियन नाओमी ओसाका को कामिला जियोर्जी पर 6- ।, 6-2 से जीत दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हुई लेकिन 2016 की चैंपियन एंजेलिक कर्बर ने अन्ना लेना फ्रीडसम के खिलाफ एक घंटा 40 मिनट कोर्ट पर बिताए। उन्होंने यह मैच 6-3, 7-6 (6) से जीता। छठी वरीयता प्राप्त पेत्रा क्रितोवा ने कैटरीना कोजलोवा को 7-6 (3), 6-2 से हराकर तीसरे दौर में

वरीयता प्राप्त स्टेफेनोस सिटसिपास ने ब्रेंडन नकाशिमा को 7-5, 6-7 (8), अमेरिका के 168वीं रैंकिंग के मैक्सिम क्रेसी को 7-6 (2), 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। जर्मनी के पांचवीं वरीयता प्राप्त अलेक्सांद्र जेवरेव ने अमेरिका

PUBLIC NOTICE It is general information that I Kartika Bindra @ Pooja Singhal D/o Vijay Kumar and Ex. W/o Sanjeev Bindra R/o H.No.-73, Priva Enclave, Near karkardooma Courts, East Delhi, Delhi-110094. declare that I got divorce from my husband vide Court Decree H.M.A No. 982/2019 dated 23.10.2019. Further I have changed name from Kartika Bindra to Pooja ighal, and shall hereafter be know as Pooja Singhal It is certified that I

have complied with other legal requirements in this connection. 🔞 रूंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड ांजीकृत कार्यालय : 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 सीआईएन : एल74899बीएल1986पीएलसी02393 फोन : 011-40453332

ई-गेल : cs@rungtairrigation.in

सूचना सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 29(1) के साथ पठित विनियम 47(1) के प्रावधान के अनुसरण में, एतट्झारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को अप. 3.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय : 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द प्लेस, नई दिल्ली–110008 में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियमावली. 2015 के विनियम 9 के अनुसरप में, अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार, कम्पनी की प्रतिमृतियों में संव्यवहार हेतु व्यापार खिडकी (ट्रेडिंग विन्डो) बंद की जा चुकी है और उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद 48 घंटे समाप्त होने तक बंद रहेगी। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rungtairrigation.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड विचारार्थ विषय-सूची के अनुसार अन्य आवश्यक प्रस्तावों पर भी विचार और अनुमोदन वास्ते रूंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड

प्रतीक शर्मा स्थान : नई दिल्ली (कम्पनी सचिव तिथि : 04-09-2020 अनुपालन अधिकारी)

SUPRA INDUSTRIAL RESOURCES LTD. Regd. Off: 1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Plsce, New Delhi -110019, CIN:L65999DL1985PLC019987;

Website: www.supraindustrialresources.ir E-mail: supra1985@gmail.com / supraexchange.com@gmail.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 04.30 p.m. As per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/ 2020 dated May 05, 2020, the forthcoming AGM will thus be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM. The deemed venue for the 35th AGM shall be 1212 Hemkunt Chambers ,89, Nehru Place, New Delhi - 110019 to transact the business contained in the Notice dated 14.08.2020 sent to all the members individually at their registered email address and also uploaded on the company's website www.supraindustrial resources.in.

Further notice is given that e-voting and facility through VC/OAVM has been provided for transacting the business at the aforesaid AGM to the shareholders. Members holding shares the cutoff date of 25.09.2020 may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL). All the members are informed that a) the business as set out in the notice of 35th AGM may be transacted by electronic voting. Working through electronic means shall commence on 26.09.2020 (10.00 am IST) and shall end on 29.09.2020 (5.00 pm IST) (b) members are requested to refer the instruct on e-voting and VC/OAVM, forming part of AGM notice regarding the process and manner for yoting by VC/OAVM and electronic means. Members who have already cast their votes by e-voting may attend the AGM by VC/OAVM but shall not be entitled to vote. for Supra Industrial Resources Ltd.

(Rajat Agarwal) Director Date : 31st August, 2020 Place: New Delhi DIN: 00266205

गुमशुदा लड़के की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह लंडका जिसका नाम आजम निवासी आशा किरण होम फॉर मैंटली चैलेंज्ड, रोहिणी, नई दिल्ली उम्र: 11 साल (अब 15 साल), कद: 4', रंग: सांवला, शरीर: सामान्य, चेहरा: गोल, पहचान: दिमागी हालत ठीक नहीं, जिसने काले रंग की ट्रैक पेंट, खाकी रंग की टोपी और पांव में सफेद रंग के जूते पहने हुए है,

दिनांक 20.01.2016 से त्यागराज स्टेडियम थाना कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से लापता है। इस संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 62 दिनांक 20.01.2016 थाना कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में दर्ज है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा लड़के के बारे में कोई जानकारी या

ई-मेल: cic@cbi.gov.in वेबसाईट: http://cbi.nic.in

थानाध्यक्ष : थाना कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011-24624825. 24620106

सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें:-

फैक्स: 24368639. दूरमाष: 24368638/24368641

सांकेतिक कब्जे की सूचना

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 23, शाल टॉवर, FICICI Bank न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतरर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभूगतान करने में विफल रहे है अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर दाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रुप से कर्जदार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ खाता क्र.	सम्पति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	नमिता यादव/ प्रशांत यादव/ LBFDB00004694265	द्वितीय तल, सेक्टर 49, स्वामित्व संख्या- 12 पर, टी पी योजना नंबर -3 (भाग- I), प्लॉट संख्या- 4822, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, फरीदाबाद/ 27 अगस्त, 2020	अक्टूबर 31, 2019 ₹. 30,32,077/-	

उपरोक्त दर्शाये गये कर्जदार/सह–कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो पूर्णत: नियम 8 और

दिनांक: सितम्बर 04, 2020 तथान: दिल्ली/ एनसीआर

6-3, 6-। से पराजित किया।

Proclamation requiring the

appearance of persons accused

(see section 82 Cr.P.C)

गंजीकृत मुकदमा अपराघ संख्या 989/18 घार

307 आईपीसी में वांछित अमियुक्त अजय उर्फ

मंत्री पुत्र प्रमोद निवासी 137/28 ईस्ट किदवई

नगर वाल्मीक बस्ती के किनारे झुग्गी झोपड़ी

थाना कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली के विरुद

गाननीय न्यायालय श्रीमान सीजेएम गौतम ब्रध

नगर द्वारा घारा 82 सीआरपीसी की उदघोषण

जारी की गई थी, कि अभियुक्त उपरोक्त एक

माह के अंदर न्यायालय में हाजिर हो अन्यथा

घारा 83 सीआरपीसी की कार्यवाही की

थाना सेक्टर 20 नोएर

सर्वधारण को सूचित किया जाता है, वि ाना सेक्टर 20 नोएडा गौतम बुध नगर पर

> प्राधिकत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लि.

बीसीसीआई दल क सदस्य कोविड-19 से संक्रमित : आईपीएल सूत्र भाषा। दुबई

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तैयारियों की देखरेख के लिए यहां आए हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से जुडे एक सदस्य को कोविड-19 के परीक्षण में पॉजीटिव पाया गया है। लीग के एक सूत्र ने गुरूवार को पीटीआई को इसकी जानकारी दी। इस टी20 प्रतियोगिता का आयोजन 19 सितंबर से दस नवंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात (युएई) में किया जाएगा। आईपीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई-भाषा से कहा, बीसीसीआई दल में शामिल एक सदस्य का परीक्षण पॉजीटिव आया है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह क्रिकेट संचालन टीम से जुड़ा है या चिकित्सा टीम से। परीक्षण चल रहे हैं तथा सभी स्वस्थ हैं और किसी में भी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि सुत्र ने कहा कि जो व्यक्ति पॉजीटिव पाया गया है, वो राष्ट्रीय टीम के सहयोगी स्टाफ का सदस्य है और यहां केंद्रीय अनुबंधित खिलाडियों पर नजर रखने के लिए है। इससे पहले चेन्नई सुपरिकंग्स के दो खिलाड़ियों सिहत 13 सदस्यों को पिछले सप्ताह इस घातक बीमारी से संक्रमित पाया गया था। वे अभी 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास पर हैं।

सीएसके टीम का दूसरा परीक्षण हुआ, आज से ट्रेनिंग शुरू करने की उम्मीद

दुबई। पिछले हपते कोविड-१९ पॉजिटिव पाए गए दो खिलाड्यों को छोड़कर चेन्नई सुपरिकंग्स (सीएसके) की टीम के शुक्रवार से अभ्यास शुरू करने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा गुरुवार को कराए गए दूसरे परीक्षण के नतीजों के बाद ही होगा। दीपक चाहर पिछले हफ्ते पॉजिटिव आने वाले दो खिलाडियों में से एकथे। इन दोनों सहित सीएसके दल के 13 सदस्य इस खतरनाक वायरस से संक्रमत पाए गए थे। सीएसके के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, परीक्षण आज कराए गए। इसके नतीने देर रात या फिर कल सुबह तक आ जाएंगे। इससे पहले सीएसके के मुख्य व्यर्यवारी अधिवारी वासी विश्वनाथन ने कहा था कि टीम दूसरे दौर की जांच के बाद शुक्रवार से ट्रेनिंग शुरू करेगी।

जरूरी लोग ही बायो बबल का हिस्सा हों : वाडिया

नई दिल्ली। किंग्स इलेवन पंजाब के सह मालिक नेस वाडिया ने गुरुवार को कहा कि चेन्नई सुपरविंग्स दल में आए क्वेविड-१९ पॉनिटिव मामले आठ में से किसी भी प्रेंचाइनी में आ सकते थे और वह चाहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) बायो-बबल में केवल वहीं लोग होने चाहिए जिनक खिलाड़ियों केसाथ होना सचमुच जरूरी हो। जिससे महामारी केबीच संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टूर्नामेट के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है।

कर्ज पुनर्गटन योजना १५ तक लागू करें : सीतारमण

भाषा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्ज पुनर्गठन योजना तेजी से लागू करने को लेकर बहस्पतिवार को एनबीएफसी (गैर-वित्तीय कंपनियों) प्रमुखों के साथ बैठक की।

प्रमुखों के साथ बैटक के समाधान को लेकर तत्काल नीति पेश करने, पात्र कर्जदारों की पहचान

करने और उन तक पहुंचने पर जोर दिया। सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाधान योजना 15 सितंबर 2020 तक लागू हो जानी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के बयान के गई है। अनुसार वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए हुई बैठक में सीतारमण ने बैंकों और एनबीएफसी से कहा, बैंक और एनबीएफसी दबाव वाले कर्ज के समाधान को लेकर तत्काल अपने-अपने निदेशक मंडल से मंज्री प्राप्त नीति को पेश करें, पात्र कर्जदारों की पहचान करें और उन तक पहुंचें। बैंकों को प्रत्एक व्यवहारिक कंपनियों



CHANGE OF NAME

I. Anita Gouda W/o Shri Ananga Kumar Gouda R/o SF-2, 9/2/29, Sector-9, Judge Colony, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have changed my name Kum Banni Gaud to Anita Gouda for all future purposes

PD (8733)A

लेकर तेजी समाधान योजना को क्रियान्वित करना चाहिए। उल्लेखनीय है

कि बैक कर्ज के भुगतान पर लगाई गई रोक 🕨 बैंकों और एनबीएफसी 31 अगस्त को समाप्त होने के

बाद दबाव कोविड-19 से जुड़े दबाव वाले कर्ज वाले कर्जदारों को राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ने एकबारगी कर्ज पुनर्गठन की अनुमति बैंकों को दी है। बयान के अनुसार करीब तीन घंटे चली बैठक में बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों ने आश्वस्त किया, वे समाधान नीति को लेकर तैयार हैं और पात्र चाहिए और उसके बारे में व्यापक कर्जदारों की पहचान और उन तक पहुंच को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी

दिलीप और शाल, प्रॉपर्टी न. ए-7/57ए, खसरा न. 289 मीन, गाँव गोण्डा गुजरात खादर, गली न. ६, ए-ब्लॉक, भजनपुरा इल्लाका शाहदरा, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली को आदित्या बिरला फाइनान्स लिमिटेड के साथ बंधक रख शालू के पास सरदार कश्मीर सिंह के मरनोप्रांत उनके कानूनी वारिस i.e महेंदर कौर से आया है अगर किसी व्यक्ति को सरदार कश्मीर सिंह के कानूनी वारिस की क्षमता में या किसी और कारण से कही गयी संपत्ति वे आपत्ति है तो वह इस प्रकाशन के 8 दिनों के भीतर

एडरेंम लिगल सल्युश-चेंबर न. 760 द्वारका कोर्ट सेक्टर-10, द्वारका, नई देल्ही- 75

वर्वसाघारण को सुवित किया जाता है कि मेरे पक्षका सुघा,सम्पत्ति नंबर- 29, क्षेत्रफल 26.63 वर्ग मीटर नंदिनी कुन्ज, नंद ग्राम, गाजियाबाद को जय भगवान, राजेश शर्मा, कल्पना शर्मा और आकाश शर्मा जो की स्वर्गीय श्रीमती प्रसंदी के कानूनी वारिस है, से खरीदने जा रहे है और सेटिन हाउसिंग फाइनान्स लिमिटेड के साथ बंधक रख रहे हैं तथा उक्त के अलावा श्रीमर्त प्रसंदी का और कोई कानूनी वारिस नहीं है. और अगर किसी व्यक्ति को स्वर्गीय श्रीमती प्रसंदी के कानून वारिस की क्षमता में या किसी और कारण से उपरोक्त संपत्ति के संबंध में, कोई आपत्ति है, या दावा है या बंधक से कोई आपत्ति है तो वह इस प्रकाशन के 08 दिनों के मीतर नीचे लिखे न, पर संपर्क कर, अप-दावा और आपत्ति की जानकारी दे दे

> एडरेंम लिगल सल्यूश वेंबर न.760, द्वारका कोट सेक्टर-10, द्वारका, नई देल्ही.-75

कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के उपरान्त कम्पनी के अंश अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोगवार 21 सितंबर 2020 के अनुसार अंशों को धारित किए हुए है. वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुसोध मेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति दूरस्थ ई-मतदान के लिए एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकृत है, तो मतदान करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

-) ई-मतदान सुविधा उन सदस्यों हेतु उपलब्ध होगी जो एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए दिवस प एजीएम में उपस्थित होंगे।) सदस्यमण जिन्होंने दूरस्थ ईं-मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और वे वीसी/ओएवीए के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे ही एजीएम में ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने हेर्
- सदस्यमण जिन्होंने एजीएम से पूर्व दूरस्थ ईं-मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया है, वे भी वीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु वे पुनः अपना मतदान करने
- के लिए ग्राह्य नहीं होंगे। एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वेबसाइट एनएसडीएल
- www.regententerprises.in पर तथा ए https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान करने से संबंधित पूछताछ/शिकायतों की स्थिति में सदस्यगण www.evoting@nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग पर उपलब्ध अशधारकों हेतु तेजी से पूछे जानेवाले प्रश्नों (एकएक्य) तथा अशधारकों हेतु हैं—सितान प्रयोक्ता मैन्युअल का संदर्भ प्रशुक्त कर केते हैं अथवा टोल की नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं अथवा टोल की नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं अथवा टोल की

कृते रेजेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड विकास कुमार

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 03.09.2020

पूर्णकालिक निदेशक (ढीआईएन:05308192)

सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड सीआईएन : एल74899डीएल1994पीएलसी061995

पंजीकृत कार्यालय : एनएस-92, खसरा सं. 33/21, राणाजी एन्क्लेव, नजफगढ़ न पार्क बस स्टैंड, नई दिल्ली-110043: ई-मेल : su वेबसाइट : http:// superiorfinlease.com, फोन सं. : 91-9953798335

(सपीरियर फिनलीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरघारकों के ध्यानार्थ)

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि सूपीरियर फिनलीज लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम ा आयोजन शुक्रवार 25 सितंबर 2020 को अप. 03.00 बजे वीडियो कॉन्क्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियं विजुअज मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय का नेष्यादन हेतु किया जाएगा।

जीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई-वोटिंग विवरण कम्पनी व समस्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजा जा चुका है, जिनकी ई-मेल आईडी'ज पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

दिद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा सेबी (सूचीयन यित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में यह भी सूचना दी जाती है कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर हस्तांतरण बहियां शुक्रवार 18 सितम्बर, 2020 से शुक्रवार 25 म्बर, 2020 तक (दोनों तिथियों सहित) कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी। यदि आपके ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागी(प्रतिमागियों) के पास पंजीकृत नहीं हैं तो वित्तीय वर्ष 19-2020 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन एवं ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु कृपया अपनी ई-मेर प्राईढी पंजीकृत करने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण करें :

- यदि शेयर भौतिक रूप में घारित हैं तो कृपया ई-मेल द्वारा superiorfinlease@gmail.com फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैंड प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैंड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैंड प्रति) उपलब्द कराएं।
- यदि शेयर अमौतिक प्रारूप में घारित है तो कृपया ई–मेल द्वारा <u>superiorfinlease@gmail.com</u> पर ढीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय ढीपीआईडी) सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लामार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैंड प्रति), आपार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैंड प्रति) उपलब्ध कराएं।

कल्पिक रूप में, सदस्यगण बिंद (1) अथवा (2), जैसी भी रिथत है, में वर्णित विवरणों को प्रमाणित करते हुए. यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर एक ई-मेल अनुरोध प्रेषित

तद्द्वारा कम्पनी (प्रबन्धन तथा प्रशासन) नियमावली 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित पनी अघिनियम 2013 की घारा 108 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताए) वेनियमावली 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों तथा एमसीए सर्कलर्स के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यो को एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले सभी व्यवसायों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध हरा रही है। इस प्रयोजन हेतू, कम्पनी ने ई—वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नैशनल सिक्योरिटी**ज** डेपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

मोट ई—बोटिंग अवधि मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 09.00 बजे आरंग होगी तथा बृहस्पतिवार 24 सितम्बर, 2020 को अप. 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात हस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 को मौतिक या अमौतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्य अपना वोट -इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग गॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय eर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने य दोबारा बोट डालने की अनुमति नहीं होगी। कोई व्यक्ति जो कि सचना के प्रेषणोपरान्त कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि 17 सितम्बर, 2020 को शेयरघारव है. वह evoting@nsdl.co.in पर अथवा virenr@skylinerta.com पर अनुरोघ मेजकर लॉगइन गईढी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में उपस्थित स जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं ढाला गया है तथा ऐसा करने हेतु प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु ग्राह्म होंगे। श्री नीलेश रंजन, कार्यरत कम्पनी सचिव, को ई-वोटिंग की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिगोट -वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ प्रेषित पत्र में दी गई है। एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात

www.superiorfinlease.com एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट ttp://www.bseindia.com तथा मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट र्थात् https://www.msei.in. जहां कम्पनी के अंश सूचीबद्ध हैं. पर भी उपलब्ध होंगे।

वरघारक, जो अपने विधार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने प्रश्न अग्रिम में, अपना गम, डीमैट खाता नंदर ∕ फोलियो नंदर, ई–मैल आईडी, मोबाइल नंदर <u>superiorfinlease@gmail.com</u> पर 22 सितम्बर, 2020 (पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी) से 24 सितम्बर, 2020 (अप. 05.00 बजे आईएसटी) तक मेज सकते हैं। कम्पनी द्वारा उनका उत्तर समुचित रूप से दिया जाएगा। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने अपना गंजीकरण वक्ता के रूप में करवाया है, केवल वही बैठक में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे∕प्रश्न पूछ सकेंगे। कम्पनी का, एजीएम के लिए समय की उपलब्धता पर निर्मर अनुसार वक्ताओं की संख्या सीमित करने का प्रधिकार सुरक्षित है।

किसी संदेह की स्थिति में, आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब् यरघारकों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) तथा ई—वोटिंग युजर मैनुअल देखें अथवा ोलफ्री नंबर : 1800–222–990 पर कॉल करें अथवा <u>evoting.nsdl.co.in</u> पर अनुरोध मेजें। अभिनव पहल' के समर्थन हेत्, सदस्यगण, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता अभी तक पंजीकृत नहीं करवाय

गया है, उनसे अनुरोध है कि कम्पनी से सभी संदेश, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं तथा सर्कुलर्स इत्वादि गमिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए, अपना ई—मेल पता पंजीकृत करवा लें। कृते सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड

हस्ता./-दिशा रानी

सार्वजनिक सूचना

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक, शाल टावर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, िICICI Bank नई दिल्ली-110005

निम्नित्खित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के मुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, हालांकि यह सुपुर्द नहीं की जा सकी और इसलिए एतद्द्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्यामूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	सुरिंग कुमार, आश्विन कुमार, रु169, पाकेट—बी, एसएफएस फ्लैट्स, शेख सराय, फेज—1, दिल्ली। खाता नंबर — एलबीएनओडी00001891650	फ्लैट नंबर सीटी3—1401, टावर—3, सन कोर्ट अपार्टमेंट, जेपी ग्रीन्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश	31−08−2020 ₹5. 2,34,69,777/−	31.01 2020
2.	एन संदीप, अनुशा जे, फ्लैट नंबर 1520—ए, प्रथम तल, मारूति विहार, चक्करपुर इन मेट रोड, गुरूग्राम, हरियाणा। खाता नंबर — एलबीजीयूआर00004027691	फ्लैंट नंबर ई—1603, 16वां तल, एनसीआर वन ग्रीन, सेक्टर—95, गुरूग्राम, हरियाणा	31−08−2020 ₹5. 94,51,227/−	31.01 2020
3.	जेश शर्मा, राखी शर्मा, 335, पाकंट—16, सेक्टर—3, एका, दिल्ली। खाता नंबर — कंपिटल गेटवे, सेक्टर—111, गुरूग्राम त्रवीजीयुआर00002388147		31−08−2020 ₹5. 92,72,709/−	31.12 2019
4.	अमित कुमार ठाकुर, इंदिरा ठाकुर, फ्लैट नंबर 303 बी विंग श्री साई लीला, समर्थ नगर रमेशवाड, थाने, महाराष्ट्र। खाता नंबर — एलबीडीईएल00004132505	फ्लैंट नंबर ई—1804, 18वां तल, टावर ई, एनसीआर ग्रीन्स, ग्राम वजीरपुर, सेक्टर—95, गुरुग्राम—122001	07-08-2020 ₹5. 1,49,34,595/-	29.02 2020
5.	राहुल जैन, स्नेहलता जैन, फ्लैट नंबर 2205, टावर-2, लोटस जिंग, सेक्टर-168, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर-52, नोएडा, उत्तर प्रदेश। खाता नंबर — एलबीजीयूआर00003722406	फ्लैट नंबर ए—1804, 18वां तल, टावर ए, एनसीआर ग्रीन, सेक्टर—95, गुरूग्राम—122001	07-08-2020 ₹. 1,49,08,914.62/-	29.02 2020
6.	संजीव कुमार कपूर, रूपाली गुलाटी, जीवन लता कपूर, सी—140, सनसिटी, सेक्टर—54, गुरूग्राम, हरियाणा। खाता नंबर — एलबीजीयूआर00002043868	सी-40, सनसिटी, प्लॉट नंबर 451, हैदरपुर वीरान, सेक्टर-54, गुरुग्राम-122001	07-08-2020 ₹5. 1,26,64,970.86/-	29.02
7.	राजीव तोमर, नीति पंवार, मकान नंबर 102, ब्लॉक—बी3, सेक्टर—16, रोहिणी वेस्ट, दिल्ली। खाता नंबर — एलबीडीईएल00004112102	फ्लैंट नंबर ई–101, प्रथम तल, टावर ई, एनसीआर वन ग्रीन, वजीरपुर, सेक्टर–95, गुरूग्राम–122001	07-08-2020 ₹5, 1,01,49,860/-	29.02
8.	लियरॉयड मार्टिन विलियन्स, वनेसा शैरोन विलियन्स, 8769, सेक्टर-सी, पाकेट-8, वसंत कुंज, दिल्ली। खाता नंबर – एलबीडीईएल00002437665	फ्लैंट नंबर पी-042001, 19वां तल, टावर पी4 सरे, क्रीसेन्ट पार्क फेज-4, सेक्टर-92, गुरूग्राम-122001	07-08-2020 ₹5. 1,08,26,103/-	30.06 2019
9.	हरेन्द्र सिंह राणा, ऋचा राणा, कार्टे ब्लांश सॉल्यूशन्स, फ्लैट नंबर 11/1, इमलिया 4, वाटिका सिटी, सोहना रोड, गुरूग्राम, हरियाणा। खाता नंबर — एलबीडीईएल0002354898	फ्लैट नंबर 1002, 10वां तल, स्टार, सूरजपुर, कासना रोड, सेक्टर—19 तथा 25, ग्रेटर नोएडा—201307	07-08-2020 ₹5. 89,72,606/-	31.03. 2020

सूबना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाय राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथ्य से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय आस्तियो का प्रतिमूर्तिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूर्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे। तिथि : 04-09-2020 प्राधिकृत अधिकारी

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड स्थान : दिल्ली/एनसीआर

कार्यालय ग्राम पंचायत सहबिस्वा विकास खण्ड मुरादनगर (गाजियाबाद)

पत्रांकः ००२ **GP** / नि०–प्रकाशन / ग्रा.प. सहबिस्वा / २०२०–२1 दिनांक:- 03.09.2020

-: अल्पकालीन निविदा सूचना :--

ग्राम पंचायत सहबिस्वा विकास खण्ड मुरादनगर (गाजियाबाद) में वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्यो की निविदाए दिनांक—11.09.2020 को अपररान्ह 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.09.2020 तक कार्यालय ग्राम पंचायत सहबिस्वा विकास खण्ड मुरादनगर (गाजियाबाद) से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा अधिकृत अधिकारियो द्वारा इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में दिनांक—11.09.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जायेगी।

क्र0	1	अनुमानित धनराशि	अर्नेस्ट	निविदा	GST	कार्य अवधि
सं०		(लाख रू० में)	मनी	मूल्य		
1.	ग्राम पंचायत सहबिस्वा में पंचायत घर	31.24	62480	3000	540	06 माह
	निर्माण कार्य					

नियम व शर्तेः-

- 1. अरनेस्ट मनी निविदा डालने के समय एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/पासबुक के रूप मे दी जा सकती है। जो अथवा नकद जमा की जा सकती है।
- 2. कार्य पी0डब्लू0डी0 की विशिष्टियों के अनुरूप होगा
- 3. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।
- निविदा केवल सरकारी विभाग में पंजीकृत ठेकेदारो को ही देय होगी।
- 5. ठेकेदार का पंजीयन उप श्रमायुक्त गाजियाबाद के यहाँ अवश्य होना चाहिए, तथा ठेकेदार को प्रत्येक कार्य का पंजीकरण उप श्रमायुक्त कार्यालय गाजियाबाद में कराना अनिवार्य होगा।
- 6. निविदा प्रपत्र के साथ 100/- रू का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर रसीदी टिकिट के साथ लाये।
- नियमानुसार सभी शासकीय कटौतिया की जायेगी।
- अन्य नियम व शर्ते लागू रहेंगी।

सचिव ग्राम पंचायत सहबिस्वा विकास खण्ड मुरादनगर

प्रधान ग्राम पंचायत सहबिस्वा विकास खण्ड मुरादनगर